



स मा चार

विधान सभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न

भोपाल : 14 दिसम्बर, 2015

मध्यप्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले शासकीय विधेयकों और अन्य विषयों के सम्बंध में विचार-विमर्श कर चर्चा के लिये समय निर्धारित किया गया।

बैठक में विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, उपनेता प्रतिपक्ष श्री बाला बच्चन, श्री सुन्दरलाल तिवारी, श्री केदारनाथ शुक्ल तथा श्री रामनिवास रावत उपस्थित थे।

समाचार

विधायक क्लब के सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 एवं 16 दिसम्बर को

भोपाल : 14 दिसम्बर, 2015

मध्यप्रदेश विधायक क्लब के तत्वावधान में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर, 2015 को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मध्यप्रदेश विधायक क्लब की बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।

विधान सभा भवन के मानसरोवर सभागार में 15 दिसम्बर को सायं 7 बजे सिंहस्थ नाद नाट्य की प्रस्तुति के साथ ही एक नृत्य नाटिका का मंचन होगा तथा 16 दिसम्बर को सायं 7 बजे विधायक क्लब की सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई है। बैठक में आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित किये जाने हेतु विधायक श्री विश्वास सारंग के संयोजकत्व में एक उप समिति का भी गठन किया गया है।

बैठक में विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, विधायकगण सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, शैलेन्द्र जैन, दिनेश राय, जसवंत सिंह हाड़ा, डॉ. मोहन यादव तथा श्रीमती शीला त्यागी सहित विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री भगवान देव ईसरानी तथा सचिव ए.पी. सिंह उपस्थित थे।

म.प्र./वि.स./ज.स./15


(मुकेश मिश्रा)
सूचना अधिकारी